

Date: 29.01.2022

To, The Listing Department Bombay Stock Exchange, Mumbai PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code:531334

Sub: COPIES OF BOARD MEETING NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of the Company's Board Meeting for considering Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31.12.2021 for the aforesaid year of our Company:-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED			
Financial Express	DATED	LANGUAGE	EDITION Lucknow Lucknow	
mancial express	29th January, 2022	English		
Jansatta	The state of the s	- inglisti		
	29th January, 2022	Hindi		

Please take the aforesaid on records.

Thanking You, For Vikalp Securities Limited

ArunKejriwal Managing Director DIN : 00687890

Regd. Office: 25/38, Karachi Khana, Kanpur - 208 001 Uttar Pradesh CIN: L65993UP1986PLC007727; Contact No.: 0512-2372665

E-mail Id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com • Website : www.vikalpsecurities.com

**FINANCIAL EXPRESS** 

# <del>"Form No. INC-25A"</del>

Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public Company into a Private Company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New Delhi In the matter of the Section 14 of the Companies

Act, 2013 and Rule 41 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of **BHARAT INDUSTRIAL ENTERPRISES** LIMITED (CIN: U01111HR1997PLC033693 having its Registered Office at **VILLAGE & POST TARAORI,** KARNAL-132116 (HARYANA)

.....Applicant

**NOTICE** is hereby given to the General Public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of Converting itself into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th January, 2022 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change / status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office

> For & on behalf of BHARAT INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED **NATHI RAM GUPTA** MANAGING DIRECTOR DIN: 00113970

Date: 28.01.2022 : Place : Karnal

address mentioned below :-

VILLAGE & POST TARAORI,

KARNAL-132116 (HARYANA)

☐ HDFC BANK

We understand your world

Details are given as under: -

**Customer Name** 

Devanand Vanjani & Mr. Sanjay Khilnani

Mr. Devanand Vanjani S/o Sh. G. R. Vanjani

Mr. Sanjay Khilnani S/o Sh. Arjun Khilnani

Mrs. Nutan Vanjani W/o Sh. Devanand Vanjani.

Shubham Ajamani S/o Late Ramesh Ajamani

Mrs. Asha Ajmani S/o Late Ramesh Ajamani

Muthoot Homefin

Name of the Borrower(s)/

Co-Borrower(s)/ Guarantor/

**Loan Account No./Branch** 

Rajesh Kumar / Ranjeeta /

012-00000133 / Alwar

Dharmendra / Rakhi /

056-05600010 / Ghaziabad

"FORM NO. INC-26"

(Incorporation) Rules, 2014]

Hon'ble Regional Director) Northern Region, New Delh

In the matter of sub-section (4) of Section 13

of Companies Act, 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

In the matter of

**Devbhumi Natural Products Producers** 

Company Private Limited

having its registered office at A-12 B. Shri Hari

Apartment, Phase 2, Ashok Vihar, New Delhi,

North West Delhi-110052,

Notice is hereby given to the General Public that

the company proposes to make application to

the Central Government under section 13 of the

Companies Act, 2013 seeking confirmation of

alteration of the Memorandum of Association of

the Company in terms of the special resolution

passed at the Annual General meeting held on

30\* September, 2021 to enable the company to

change its Registered Office from "National

Capital Territory of Delhi" to "State of

Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-

21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor

complaint form or cause to be delivered or send

by registered post of his/her objections supported

by an affidavit stating the nature of his/her interest

and grounds of opposition to the Regional

Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor,

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-

110003, Delhi within fourteen days of the date

of publication of this notice with a copy to the

applicant company at its registered office at the

A-12 B. Shri Hari Apartment, Phase 2, Ashok

For and on behalf of the Applicant,

Address: House No. 17, Raduva, Chamoli-246473, Uttrakhand

Company Private Limited

Madhu Devi

DIN: 07724524

Director

Devbhumi Natural Products Producers

Vihar, New Delhi, North West Delhi-110052

financialexp.epap.in

address mentioned below:

Date: 27.01.2022

Place: Chamoli, Uttrakhand

Uttarakhand"

Before the Central Government

[Pursuant to rule 30 of the Companies

Place : Delhi

Date: 29.01.2022

Ajamani W/o Late Ramesh Ajamani 2(B) Mr. Ajmani).

section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

PUBLIC NOTICE NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT SHARE

CERTIFICATE NO 2692601 FOR 360 EQUITY SHARES OF F.V Rs 1/each (RUPEES ONE ONLY) BEARING DISTINCTIVE NOS 2415489001 TO 2415489360 OF JSW STEELS LTD REGISTERED IN THE NAME OF KANCHAN HAS BEEN LOST. KANCHAN SINGLA HAVE APPLIED TO THE COMPANY TO ISSUE DUPLICATE CERTIFICATE. ANY PERSON WHO HAS/HAVE ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARES CERTIFICATE SHOULD LODGE SUCH CLAIM WITH THE COMPANY WITHIN 15 DAYS OF THE PUBLICATION THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY WILL PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD.1 Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060

Tel No.: 9910003638, Email Id: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in CIN: L67120DL1982PLC289090

NOTICE

Pursuant to Listing Agreement(s) with BSE Ltd. & CSE, Notice is hereby given that Meetings of Audit Committee & Board of Directors is scheduled to be held on MONDAY - 07.02.2022 at 10:30 & 11:30 A.M. respectively at its Read. Office inter-alia to consider, approve & adopt Un-Audited Financial Results of Quarter ended 31.12.2021 alongwith Limited Review Report from Statutory Auditors, Trading Window in equity shares will remain closed from 01.01.2022 to 12.02.2022 for all insiders, to consider & appoint Company Secretary cum Compliance Officer and Any other matter with the permission of Chair. Place: New Delhi Rai Kumar Gupta - WTD & CFO

Dated: 28.01.2022 DIN: 00074532

Legal Cell

Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A. 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015

Muthoot Homefin (India) Ltd

Corporate Office: 1201 & 1202, 12th Floor, 'A' Wing, Lotus Corporate

Park, Off. Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.

POSSESSION NOTICE [RULE 8(1)] (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest

Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices, and calling upon to pay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken

possession of the property described herein above in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8

& 9 of the said Rules, on above mentioned dates. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to charge of the HDFC Bank Ltd. for an amount of notices mentioned above and interest

thereon together with expenses and charges etc. less amount paid, if any. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act,

The undersigned is the Authorised Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under Securitisation And Reconstruction

Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under

Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has

issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower/s (the "said Borrower"), to

In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower to pay to MHIL, within 60 days from the

publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest at 2% p.m. as detailed in the

said Demand Notices, from the dates mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan

agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers. As security for due repayment of the

f the said Borrowers shall fail to make payment to MHIL as aforesaid, MHIL shall proceed against the above secured assets

under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and

The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or

otherwise without the prior written consent of MHIL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions

of the said Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

**HOUSING** 

and interest thereon.

NO. BORROWERS

RATHORE,

RATHAUR,

**PRABHA** 

ARIF ALI.

**SUMIT YADAV** 

VIDHYA DEVI ,

**CHAND YADAV** 

DINESH

PLACE: AGRA

DATED: 29.01.2022

RANI

NAME OF

**PANKAJ SINGH** 

secured assets. Details of Property taken in possession are herein below

DESCRIPTION

**OF PROPERTY** 

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF

MORTGAGE PROPERTY OF FLAT NO.

G-094C PART OF KHASRA NO. 973

CALLIDORA HOMES JAIPURIA

SUNRISE GREEN MAUZA BAROLI AHIR

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF

MORTGAGE PROPERTY PROPERTY

MNC NO. 43/TK/P-15AB, MAUZA

RUNKUTA, AGRA MATHURA ROAD,

MORTGAGE PROPERTY HOUSE NO-93

BEARING AT KHASRA NO-335 & 336

SITUATED AT DREAM RESIDENCY

MAUZAITORAAGRAPIN 282001

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF 24-01-2022

AGRAPIN-282007

TAJ GANJ WARD AGRAPIN-283125

Demand

repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s issued to them that are also given below

loan, the following assets have been mortgaged to MHIL by the said Borrowers respectively.

**Total Outstanding** 

Dues (Rs.)

Rs. 390760 /- (Rupees

Three Lac Ninety Thousand

Seven Hundred Sixty Only)

Rs. 701804 /- (Rupees

Seven Lac One Thousand

**Eight Hundred Four Only)** 

Description of Property

Industrial Estate, Sector-31, Faridabad, Haryana

(property Owned By Mr. Devanand Vanjani & Mrs. Nutan

MIG Flat No. BW / 35-C, On Second Floor, Cat - Sfs-ii,

## **PUBLIC NOTICE**

CP (IB) No. 218/Chd/Chd/2018 pursuant to Hon'ble NCLT Chandigarh Bench vide order dated 07.10.2019 Gangotri Steel Syndicate

> M/s Jaycon Infrastructure Limited IA No. 310/2021 Next date of Hearing: 10.02.2022

Public Notice issued to: Kishun Pal (Respondent No. 3) R/o House No. SK-497 B, Sector-122, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida-201301.

In above titled case the respondents could not be served through speed post. Hence, Resolution Professional is adopting substituted mode of service for the above respondent through publication in accordance with Hon'ble NCLT order dated 25.01.2022 in IA No. 310/2021 in the matter of CIRP of Jaycon Infrastructure Limited. The above respondents are directed to attend the sitting members of the

ribunal on the date fixed personally or through any authorised agent or For details refer to link given below (Listing History < Order dated

25.01.2022) https://nclt.gov.in/case-details?bench= Y2hhbm RpZ2 FyaA== & filing

no=MDQwNDExNTAwMDQ5MjAxOA== Mandeep Gujra

(Regn No IBBI/IPA-001/IP-P00507/2017-18/10908) Date: 28.01.2022 Resolution Professional in the matter of Place: Chandigarh CIRP of Jaycon Infrastructure Limited

M/s Vansan Plastics Through its Partners: - Mr. Shed No. 73- B. Area Measuring 1630 Sq. Ft., Hsido.

Mr. Ramesh Ajamani (Since Deceased) Block-BW, In The Layout Plan Of Shalimar Bagh

Represented Through Legal Heirs 2(A) Mrs. Asha Residential Scheme, Delhi (Property Owned By Mrs. Asha

# WELLESLEY

CORPORATION LIMITED Regd Off: Shop No # 1, Country Inn, Mehragoan, Bhimtal, Uttarakhand-248179

Corp Off: A-41, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044 CIN: L45202UR1991PLC000604 Email: cs@wellesleycorp.com

**Telephone no:** 011-71546500 Website: www.wellesleycorp.com NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations &

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 05th February, 2022 (Saturday) at 03:00 PM in Corporate Office to consider and approve the Un-Audited financial results for the quarter & nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2021.

The above information is available on the website of the Company a www.wellesleycorp.com and also on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

For Wellesley Corporation Limited

Sumeer Narain Mathur

Place: New Delhi Date: 28th January, 2022

FCS-9042 (CFO, Company Secretary & Compliance Officer

### VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH -208001 CIN-L65993UP1986PLC007727, Contact No: 0512-2372665 Email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

#### Website: www.vikalpsecurities.com NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 47(1)(a) read with Regulation 33 and Regulation 29 of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, a meeting of Board of Directors of Vikalp Securities Limited will be held on Mondey, 07th February, 2022 at 02:30 P.M. at the Registered Office of the Company at 25/38, Karach Khana, Kanpur, Uttar Pradesh – 208001, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2021. The said information is also available on the website of the Company www.vikalpsecurities.com and on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com.

For Vikalp Securities Limited

Date: 28th January, 2022 Place: Kanpur

13(2)Notice Date: 18-Oct-2021

Notice Amt.: Rs. 14,98,109/-

Possession Date: 27-Jan-2022

Location: Faridabad (Haryana)

13(2)Notice Date: 12-Oct-2021

Notice Amt.: Rs. 52,08,918/-

Possession Date : 27-Jan-2022

Location : Shalimar Bagh Delhi

Authorised Officer, HDFC Bank Ltd

Description of secured asset

(immovable property)

Gandhi Nagar, Near Jain School, Rewari

Pratap Vihar Colony, Ghaziabad, Near Golden

**Authorised Officer** 

For Muthoot Homefin (India) Ltd.

(FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED)

Corporate Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Sr.

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing

Finance Limited) of the above Corporate/ Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13

(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has

taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13 (4) of the

said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 24th day of January of the year 2022.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property

will be subject to the charge of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing Finance Limited) the amount

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

POSSESSION

24-01-2022

24-01-2022

**STATUTORY** 

24-06-2021

13-07-2021

13-07-2021

the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune 411036

POONAWALLA POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED APPENDIX IV (SEE RULE 8(1)

Public School, Uttar Pradesh - 201009

30-09-2021 Survey No. Mustil No.125, Aanand Nagar,

**25-10-2021** Flat No.F-184, Ews. First Floor, T.S Sector -11

Gurgaon, Haryana - 123401

**Arun Kejriwal Managing Director** DIN: 00687890

#### SAMRAT FORGINGS LIMITED CIN: L28910CH1981PLC004522

Regd. Office: #406, First Floor, Sector 15-A, Chandigarh-160015 Phone: 0172-2774555, 9257240444 -mail: info@samrattorgings.com Website: www.samratforgings.com

#### NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, February 05, 2022, inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2021. The Notice is also available of the website of the Company i.e. www.samratforgings.com and website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For Samrat Forgings Ltd Sd/-Date: 28.01.2022 (Sandeep Kumar) Place: Chandigarh Company Secretary

"FORM NO. INC-26" [Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the

Company from one state to another Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of STELLAR DIGITAL PRIVATE LIMITED having its Registered Office at H.NO. 16/33 BÄSEMENT OLD RAJINDER NAGAR

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to he Central Government under section 13 of he Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Saturday, 22<sup>rd</sup> Day of January 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to

"State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected. by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of is/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 Days from the date of publication of this notice

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: H.NO 16/33 BASEMENT OLD RAJINDER NAGAR

with a copy to the applicant company at its

registered office at the address mentioned

FOR AND ON BEHALF OF STELLAR DIGITAL PRIVATE LIMITED

AYUSH SINHA

Dated: 28.01.2022 (Director) DIN: 07226117 'IMPORTANT'

# Whilst care is taken prior to copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

POSSESSION NOTICE

DEMAND

NOTICE RS.

RS.18,08,827/- (RUPEES EIGHTEEN LAKH EIGHT

THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY SEVEN

ONLY) PAYABLE AS ON 24-JUN-21 ALONG WITH

RS. 29.74.076/- (RUPEES TWENTY NINE LAKH

SEVENTY FOUR THOUSAND SEVENTY SIX

ONLY) PAYABLE AS ON 12-JUL-21 ALONG WITH

LOAN NO. HM/0094/H/17/100302 RS. 18,32,876/-

(RUPEES EIGHTEEN LAKH THIRTY TWO

THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY SIX

ONLY) PAYABLE AS ON 12-JUL-21 ALONG WITH

INTEREST @ 13.00% TILL THE REALIZATION.

INTEREST @ 12.80% TILL THE REALIZATION.

INTEREST @ 13.30% TILL THE REALIZATION.

LOAN NO.HM/0094/H/17/100040

LOAN NO. HL/0094/H/13/100041

Sd/-AUTHORIZED OFFICE

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED

(FOR MERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED)

(FOR IMMOVABLE PROPERTY)

## PUBLIC NOTICE

CP (IB) No. 218/Chd/Chd/2018 pursuant to Hon'ble NCLT Chandigarh Bench vide order dated 07.10.2019 Gangotri Steel Syndicate

> M/s Jaycon Infrastructure Limited IA No.186/2021 Next date of Hearing: 10.02.2022

Public Notice issued to: Mr. Jatinder Mittal (Respondent No. 1) R/o House No. 1464, Sector 43-B, Chandigarh- 160043, Mrs. Neelam Mittal (Respondent No. 2) R/o House No. 1464, Sector-43-B, Chandigarh-160043, Mr. Yoginder Mittal (Respondent No. 3) R/o House No. 1464 Sector-43-B, Chandigarh- 160043, Mrs. Archana Mittal (Respondent No. 4) R/o House No. 1464, Sector-43-B, Chandigarh- 160043 and Mr. Pankaj Garg (Respondent No. 5) R/o House No. 184/6, Ward No. 8

In above titled case, the respondents could not be served through speed post. Hence, Resolution Professional is adopting substituted mode of service for the above respondent through publication in accordance with Hon'ble NCLT order dated 25.01.2022 in IA No. 186/2021 in the matter of CIRP of Jaycon Infrastructure Limited.

The above respondents are directed to attend the sitting members of the Tribunal on the date fixed personally or through any authorised agent or For details refer to link given below (Listing History < Order dated

25.01.2022) https://nclt.gov.in/case-details? bench= Y2hhbmRp Z2FyaA ==& filing no=MDQwNDExNTAwMDQ5MiAxOA==

Mandeep Gujral (Regn No IBBI/IPA-001/IP-P00507/2017-18/10908) Date: 28.01.2022 Resolution Professional in the matter of

CIRP of Jaycon Infrastructure Limited Place: Chandigarh इंडियन बैंक Indian Bank

🛕 इलाहाबाद

Kaithal, Haryana- 136027.

ALLAHABAD

Stressed Asset Management Branch, Mumbai, Office No-73, 7th Floor, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021

#### **PUBLIC NOTICE** Under Section 13(4) And 15 Of Sarfaesi Act, 2002

Whereas The undersigned being the authorised officer of the Indian Bank, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act V of 1970, carrying on the business of Banking and having its Head Office at 66, Rajaji Salai. Chennai 600 001 and Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600014 and one of its branches at Stressed Asset Management Branch, Unit No.73, 7th Floor, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.06.2021 calling upon the Borrower, M/s Pratibha Industries Ltd. and the Guarantors/Mortgagors having account with our Branch to repay the amount mentioned in the notice being ₹310,08,19,332.73 (Rupee Three Hundred Ten Crore Eight Lakh Nineteen Thousand Three Hundred Thirty Two & Paise Seventy Three only) and interest thereon from 29.06.2021 till date of repayment within 60 days from the date of said notice.

The Borrower/ Mortgagor/ Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Mortgagor/ Guarantor and the public in general that the undersigned in exercise of powers conferred on her under section (4) of section 13 of the Act read with Rule 4 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 has taken possession of the properties secured with it on this the 25thday of January of the year 2022 in the manner as provided in the aforesaid provision of law. Then notice is also hereby given that the Bank in exercise of power conferred under section 13(4). read with its provisos and Section 15 of the Act has taken superintendence and control of the business of DJB Package-3, [awarded to the PMC Pratibha Mosinzhsroi Consortium ('PMC' or PM Consortium", wherein the Borrower is lead member)] at the site of Delhi Jal Board- ISP Package 3 Project, Near Burari Delhi Jal Board, Bye Pass, New Delhi

Delhi Jal Board, Package 3, 1924 MGD, New Sewage Pumping Station, Bharat Nagar, Ashok Vihar, New Delhi- 110052. n pursuant to the above, Bank has appointed CMA, Mr. Sanjay Gupta to be the Administrator of

the business of the DJB Package-3 awarded to the Pratibha Mosinzhsroi Consortium at the sit aforesaid at Burari and Bharat Nagar, Delhi. Accordingly, any person holding any office having power of superintendence, direction and control of the business of the Borrower in Pratibha Mosinzhsroi Consortium for the aforesaid project shall be deemed to have vacated their offices and such powers vest with the Administrator in terms of the aforesaid provision of law.

Date: 25.01.2022 Kalpana Purohi Place: Delhi Authorised Officer (Indian Bank)

Fullerton FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LIMITED India Corporate Off: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, B Wing, Powai, Mumbai 400 Corporate Off: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, B Wing, Powai, Mumbai 400 **DEMAND NOTICE** 

Under The Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules")

The undersigned being the authorized officer of Fullerton India Credit Company Limited (FICCL) unde the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as pe Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

Name of the Borrower(s) | Demand Notice Date | Description Of Immovable Property / Properties Mortgager JANHAVI SECURED ASSET 1: PLOT NO.51.LAND 27/12/2021 ENTERPRISES BEARING KHASRA NO.84 & 85 MEASURING Rs. 2334519/-As on 21.12.2021

VIJAY PAL SINGH KRISHNA DEVI Account No: 191001310338282, 191001310718737. 191020910605116. 191020910758735

AREA 68.28 SQ.METERS, SITUATED AT HEERA PALACE COLONY, MAUZA KAULAKKA, TEHSIL AND DISTT AGRA. SECURED ASSET 2: PLOT OF LAND BEARING KHASRA NO.84 MIN., MEASURING AREA 83.61 SQ.METERS. SITUATED AT NAGLA JASSA

(CHAK SOYAM), TAJGANJ WARD, TEHSIL AND DISTT AGRA. The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the deman

together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till th date of realization of payment. The borrower(s) may note that FICCL is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, FICCL shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. FICCL is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), FICCL also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the FICCL. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to FICCL under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of FICCL and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours. Sd/-, Authorised Officer

amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication

Date: 29.01.2022. Place: AGRA, U.P. Fullerton India Credit Company Limited

#### Karnataka Bank Ltd. Your Family Bank, Across India,

CIN: L85110KA1924PLC001128

: 011-40591567 (Extn. 240)

Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060.

Head Office, Mangaluru - 575 002

E-Mail :delhiarm@ktkbank.com Mobile : 9319891680 Website : www.karnatakabank.com POSSESSION NOTICE

#### (For Immovable Property) Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED,

under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest [Act], 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 25.10.2021 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: (1) Mr. Mohit Mishra S/o Mr. Rajeshwar Dayal Mishra, C-75, 2nd Floor, New Panchwati Colony Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, (2) Mrs. Nidhi Mishra W/o Mr. Mohit Mishra, C-75 2nd Floor, New Panchwati Colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, (3) Mr. Atul Sharma S/o Mr. Vijay Kumar Sharma, House No.140, Sihani Gate, Chandrapuri, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.22,65,346.70 [Rupees Twenty Two Lakhs Sixty Five Thousand Three Hundred Forty Six and Seventy Paisa Only] under PS-Term Loan Account No. 5677001800001101 along with future interest from 20.10.2021, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 27th January the year 2022. The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general

is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, Malviya Nagar Branch-Delhi for an amount of Rs.22,41,341.70 [Rupees Twenty Two Lakhs Forty One Thousand Three Hundred Forty One and Seventy Paisa Only] under PS-Term Loan Account No.5677001800001101 along with future interest from 20.01.2022, Plus costs.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.]

# DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:

All that part and parcel of Residential Flat Baring No.C-75, 2nd Flor, Block-C, Khasra No.63, Panchvati Colony, Vill—Mahama Sarai Urf Kot, Pargana Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, belonging to Mr. Mohit Mishra & Mrs. Nidhi Mishra. Boundaries:

East : Road 24 Feet North: Property No.C-76 Place: Ghaziabad Date: 27.01.2022

For Karnataka Bank Ltd Chief Manager & Authorised Officer

West : Property No.C-66

South: Property No.C-74

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SRP TRADE AND EQUITY PRIVATE LIMITED 1. NAME OF CORPORATE PERSON SRP TRADE AND EQUITY PRIVATE LIMITED DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE Registrar of Companies, Delhi PERSON IS INCORPORATED/REGISTERED CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED U74120DL2008PTC179502

JABILITY IDENTITY NUMBER OF ORPORATE PERSON ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE Reg. Office: 4735/22, ROOM NO 219, AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF PRAKASH DEEP BUILDING, 2ND FLOOR, DELHI MEDICAL ASSOCIATION ROAD, CORPORATE PERSON DARYA GANJ DELHI-110002 LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF 25/01/2022

REGISTRATION NUMBER OF THE A. New Delhi-110014 IBBI Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00005/2016-LIQUIDATOR Mobile: 9910219977 Email: sachinsapracs@yahoo.com 8. LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS 24/02/2022

CORPORATE PERSON

liquidation on 25th January, 2022.

10. Address and e-mail to be used for

nce with the liquidator

Date: 25/01/2022

Place : Delhi

NAME. ADDRESS, EMAIL ADDRESS.

TELEPHONE NUMBER AND THE

The stakeholders of M/s SRP Trade and Equity Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 24th February, 2022, to the liquidator at the address mentioned The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

Notice is hereby given that the M/s SRP Trade and Equity Private Limited has commenced voluntary

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sachin Sapra

Liquidator of SRP Trade and Equity Private Limited IP Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00005/2016-17/10005

Sachin Sapra Address: 2/11B, Basement, Jangpura Block-

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy

Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF MODI TELECOMMUNICATIONS LIMITED

PARTICULARS NAME OF CORPORATE DEBTOR MODI TELECOMMUNICATIONS LIMITED Date of Incorporation of Corporate Debtor 30.03.1992 Authority under which Corporate Debtor Registrar of Companies, Delhi is Incorporated/Registered Corporate Identity No. / Limited Liability U6420HR1992PLC034756 Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office & principal 14th Floor, Signature Tower A, South City, office (if any) of Corporate Debtor NH-8, Gurgaon, Haryana -122001 Date of closure of Insolvency 24th January 2022

Resolution Process Liquidation commencement date 24th January 2022 (Order Received on 28th January 2022) of Corporate Debtor Name & Registration Number of Insolvency Name: Atul Mittal Professional acting as Liquidator Regn. No: IBBI/IPA-001/IP 00439/2017-18/10762 Address: 174, BALCO Apartments, Plot No.58, Address and Email of the liquidator as registered with the Board IP Extn., Patpargani, Delhi-110092 Email: a.mittalmc@gmail.com

Email: contact@aarshrp.com 23.02.2022 Last date for submission of Claims Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Delhi Bench has ordered the commencement of liquidation of the Modi Telecommunications Limited on 24th January 2022. The stakeholders of Modi Telecommunications Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 23rd February 2022, to the liquidator at the address mentioned against item 10. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Atul Mittal Date : 28.01.2022 Liquidator of Modi Telecommunications Limited

Regn. No: IBBI/IPA-001/IP 00439/2017-18/10762

Branch office: 7th Floor Videocon Tower, Block E 1, Jhandewalan Extension. New Delhi 110055 CIN No. U67190MH2008PLC187552 DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules")

Loan Account No. (a)	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s) (b)	Total Outstanding Dues (Rs.) as on below date* (c)	Date of Demand Notice and date of NPA (d)	Description of the Secured Assets Immovable Properties/ Mortgaged Properties (e)
and	In the Loan account of 1. Mr. Abhishek Kumar Singh (Borrower & Mortgagor) 2. Mr. Vivek Kumar Singh (Guarantor) 3. Ms. Akansha Singh (Mortgagor/ Guarantor) 4. Ms. Neeta Singh	Rs. 1,54,86,820/- (Rupees One Crore Fifty Four Lakhs Eighty Six Thousand Eight Hundred and Twenty Only) as on 12th January.	Demand Notice: 19th January 2022. NPA Date: 3rd November, 2021	(more fully described in Schedule A hereto).

"with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in the Demand Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges, etc. incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCFSL as aforesaid, then TCFSL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to

Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCFSL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Property No. 1 owned by Abhishek Kumar Singh and Akansha Singh Flat No. SU / 2125 / B-2, Block B2, Type - A, admeasuring super Survey / Door

(Guarantor & Mortgagor)

area 157.73 sq. mtrs. and built up area of 139.46 sq. mtrs. at Patta / Khata No. Twelfth floor, Saryu Apartment, Sector - 1, Gomti Nagar Ext., Ward - Rafi Ahmad Kidwai Nagar, Lucknow - 226010 Measurement Super area 157.73 sq. mtrs. and built up area of 139.46 sq. mtrs Extent of Property

Location / Land Marks / Name of the area. Mohalla GS109 and covered parking no. B353. City/ District

East by: Adjoining SU/2124/B-2, Type C (3 BHK + Servant Room) and SU/2126/B-2, Type B (3 BHK) West by: On Top SU/2135/B-2, Type D (4 BHK + Terrace)

Plot No. 3, admeasuring 2000 sq. ft. / 185.87 sqr. mtrs., forming portion of land on Khasra No. 383 ka min at village Naubasta. Patta / Khata No. Kalan, Pargana, Tehsil & Dist, Lucknow. admeasuring 2000 sq. ft. / 185.87 sqr. mtrs.

Extent of Property Plot No. 3, admeasuring 2000 sq. ft. / 185.87 sqr. mtrs., forming Location / Land Marks / Name of portion of land on Khasra No. 383 ka min at village Naubasta the area, Mohalla Kalan, Pargana, Tehsil & Dist. Lucknow City/ District

Boundaries: East by: 20 feet wide road West by: other plot South by: plot of Gyan Singh Yadav

Date: 19th January, 2022 Place: New Delhi

Lucknow

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 163, BALCO Apartments, Plot No.58,

IP Extn., Patparganj, Delhi-110092

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Financial Services

Limited (TCFSL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) (all singularly or together referred to "Obligors" listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the Notice, as per details given below. Copies of the said Notice are served by Email, Courier and Speed Post and are available with the undersigned, and the said Obligor(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned from Monday to Friday 10 A.M. to 5.00 P.M. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) to pay to TCFSL, within 60 days from the date of the Notice, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCFSL by the said Obligor(s)

the costs and consequences. The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said

A: Collateral Security:

Flat No. SU / 2125 / B-2, Block B2, Type - A, admeasuring super area 157.73 sq. mtrs. And built up area of 139.46 sq. mtrs. at Twelfth floor, Saryu Apartment, Sector - 1, Gomti Nagar Ext., Ward - Rafi Ahmad Kidwai Nagar, Lucknow with open parking no.

South by: Below SU/2115/B-2, Type A (3 BHK) North by: NA.

Survey / Door

North by: plot of Gyan Singh Yadav

Lucknow Boundaries:

Property No. 2 owned by Neetu Singh

Measurement

For Tata Capital Financial Services Limited

Authorised Officer

4 जनसत्ता, 29 जनवरी, 2022 उत्तर प्रदेश

# नानपारा सीट अपना दल (एस) के खाते में गई

बहराइच, 28 जनवरी (जनसत्ता)।

Piramal

थान : उत्तर प्रदेश

जिले की नानपारा विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के खाते में गई है। यहां से रामनिवास को टिकट दिया गया है। हालांकि, यह सीट अपना दल को मिलने के बाद अब भाजपा खेमे में अंतर विरोध शुरू हो गया है। असंतुष्ट क्षेत्रीय नेताओं ने भाजपा नेतृत्व के निर्णय पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया है। नानपारा विधानसभा सीट गत पांच चुनावों से भाजपा के खाते में रही है। यहां से चार बार जटाशंकर सिंह को क्षेत्र की जनता ने चुनाव जिताकर सदन तक भेजा है। वर्ष 2017 में भाजपा के टिकट पर लड़ीं माधुरी वर्मा भी चुनाव जीतने 🛮 जाने से भाजपा का परंपरागत कार्यकर्ता काफी निराश व हताश है।

माधुरी अब भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गई हैं। अब नानपारा की सीट भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के खाते में आ गई है। गठबंधन के खाते में सीट चली जाने से क्षेत्रीय भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में असंतोष के स्वर फूटने लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि नानपारा सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है। यहां की जनता ने पांच बार भाजपा प्रत्याशी पर भरोसा जताकर सदन तक पहुंचाया है। इस बार क्षेत्र की जनता को भाजपा से काफी आशाएं थीं, लेकिन सीट गठबंधन के खाते में चली

#### पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ्रीय कार्यालय : कार्यालय सं. 211 एवं 212, दूसरी मंजिल, 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226016

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकार्र के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने मे विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्मति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्मत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का

सं. 1.	कर्जदार( रों )/जमानती( यों ) के नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा कर की तिथि
	(ऋण कोड संख्या 00001608), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) राकेश कुमार बाजपेयी (कर्जदार का नाम) / प्रतिमा बाजपेयी (सह- कर्जदार)	मकान नंबर एलआईजी/403 एमराल्ड गुलिस्तान प्लॉट नंबर 2 स्कीम नंबर 39, जाजमऊ, कानपुर, कानपुर ग्रामीण- 208007	26-11-2018 रु. 6,68,460/- (रुपये छह लाख अड़सट हजार चार सौ साट मात्र) के लिए	24-जन2
2.	(ऋण कोड संख्या 00000622), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) पारस राम (कर्जदार का नाम) / विजय लक्ष्मी (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 28 बी अराजी नंबर 257 मिन का हिस्सा, सनिगवां, कानपुर, कानपुर ग्रामीण- 208021	20-05-2019 रु. 6,95,174/- (रुपये छह लाख पिचानवे हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00005212), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) राजेश कुमार (कर्जदार का नाम) / कलावती (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर डी 6 खसरा नंबर 355 गांव पूरनपुर तहसील मोहनलाल गंज लखनक लखनक उत्तर प्रदेश:- 226020	18-06-2020 रु. 8,96,662/- के लिए (रुपये आठ लाख छियानचे हजार छह सौ बासठ मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00004265), (हल्द्वानी- उत्तर प्रदेश) विनय कुमार शर्मा (कर्जदार का नाम) / कुसुम गंगवार (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 208 मिन का हिस्सा, गांव किशनपुर, निकट सूरजमल कॉलेज, किच्छा उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड :- 263148	27-07-2020 रु.19,95,498/- (रुपये उन्नीस लाख पिचानवे हजार चार सौ अट्ठानबे मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00001828), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) सीता राम माथुर (कर्जदार का नाम) / कुंती देवी माथुर (सह–कर्जदार)	प्लॉट नंबर 119, ब्लॉक डब्ल्यू-2 स्कीम नंबर 2 यूनिट नंबर एस-2, रुद्र साई रेजीडेंसी जूही कानपुर कानपुर ग्रामीण उत्तर प्रदेश:- 208014	19-08-2020 रु.15,27,520/- के लिए (रुपये पंद्रह लाख सत्ताईस हजार पांच सौ बीस मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00002957), (वाराणसी- उत्तर प्रदेश) कलावती वर्मा (कर्जदार का नाम) / अभिषेक सिंह (सह-कर्जदार)	अराजी नंबर 974 पर मकान, मौजा गद्योपुर, परगना-नबाबगंज तहसील सोरांव इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश- 211013	19-11-2019 रु.15,05,884/- (रुपये पंद्रह लाख पांच हजार आठ सौ चौरासी मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00004239), (हल्ह्यानी- उत्तर प्रदेश) बालम सिंह भंडारी (कर्जदार का नाम) / विमला (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 160 मिन का भाग, प्राइवेट प्लॉट नंबर ए-241, गायत्री नगर ग्राम विजय नगर, रुद्रपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड- 263153	29-04-2021 रु. 25,20,404/- (रुपये पच्चीस लाख बीस हजार चार सौ चार मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00000438), (हल्द्वानी- उत्तर प्रदेश) सरोज देवी (कर्जदार का नाम) / सतीश कुमार पांडे (सह-कर्जदार)	प्राइवेट प्लॉट नंबर 62 खेत नंबर 26 मिन गांव-फुलसुंगा रुद्र विहार कॉलोनी तहसील किच्छा जिला ऊथम सिंह नगर रुद्रपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड– 263153	17-05-2021 रु. 12,46,877/- (रुपये बारह लाख छियालीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्याः 00000450), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) गुरमीत सिंह (कर्जदार का नाम) / राजिंदर कौर (सह-कर्जदार)	रकीट नंबर 414 चौथी मॅजिल श्री नागेश्वर एन्क्लेव केशवपुरम कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208017	17–05–2021 रु. 10,40,659/– (रुपये दस लाख चालीस हजार छह सौ उनसट मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00003312), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) नीरज कुमार तिवारी (कर्जदार का नाम) / अनुपम तिवारी (सह–कर्जदार)	सर्वे नंबर-137 पर प्लॉट, मोहल्ला पुराना गिरि नगर फत्तन सरैन सीतापुर सीतापुर उत्तर प्रदेश:- 261001	27-05-2021 रु. 6,24,805/- (रुपये छह लाख चौबीस हजार आठ सौ पांच मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00002126), (हल्ह्यानी- उत्तर प्रदेश) हेमचंद्र तिवारी (कर्जदार का नाम) / गायत्री तिवारी (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 165 क मिन, प्राइवेट प्लॉट नंबर 224-ए गांव विजय नगर गायत्री नगर कॉलोनी रुद्रपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्डः- 263153	17-05-2021 रु. 11,55,257/- (रुपये ग्यारह लाख पचपन हजार दो सौ सत्तावन मात्र) के लिए	25-जन2
2.	(ऋण कोड संख्या 00002344), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) धरणी धर पांडे (कर्जदार का नाम) / रानी पांडे (सह-कर्जदार)	विला नंबर एफ-13, अरजी नंबर 2/1 का भाग, हुसैन नगर, उन्नाव उन्नाव उत्तर प्रदेश:- 209801	12-05-2021 रु. 23,90,825/- (रुपये तेईस लाख नब्बे हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) के लिए	25-जन2
5.	कुमार सोनकर (कर्जदार का नाम) / सुजाता सोनकर (सह-	मकान नं 1/513, आवास विकास योजना संख्या-3 अम्बेडकर पुरम, कल्याणपुर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208001	27-05-2021 रु. 4,76,985/- (रुपये चार लाख छिहत्तर हजार नौ सौ पिचासी मात्र) के लिए	25-जन2
i.	कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00005603), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) सुजीत सरकार (कर्जदार का नाम) / बनश्री कर्मांकर (सह-कर्जदार)	सेक्टर 9 सीतापुर रोड लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020 में प्लॉट नंबर डी 1/59 पर फ्लैट नंबर बी 1 पहली मंजिल	27-05-2021 रु. 8,72,075/- के लिए (रुपये आठ लाख बहत्तर हजार पचहत्तर मात्र) के लिए	24-जन2
š.	(ऋण कोड संख्या 00005732), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) राकेश (कर्जदार का नाम) / रानी देवी वर्मा (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 7 पर मकान, खसरा नंबर 358 का हिस्सा, नंदी विहार लखनक लखनक उत्तर प्रदेश:- 226020	17-05-2021 रुपये के लिए। 14,24,917/- (रुपये चौदह लाख चौबीस हजार नौ सौ सत्रह मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00005933), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) मनोज खेतान (कर्जदार का नाम) / रूही खेतान (सह-कर्जदार)	मकान नं ई 2128/2, ई-ब्लॉक राजाजी पुरम, वार्ड- हरदीन राय नगर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020	17-05-2021 रुपये 10,98,679/- के लिए (रुपये दस लाख अट्ठानबे हजार छह सौ उन्यासी मात्र) के लिए	25-जन2
۲.	(ऋण कोड संख्या 00005934), (लखनक- उत्तर प्रदेश) मनोज खेतान (कर्जदार का नाम) / रूही खेतान (सह-कर्जदार)	मकान नं ई 2128/2, ई-ब्लॉक राजाजी पुरम, वार्ड- हरदीन राय नगर लखनक लखनक उत्तर प्रदेश:- 226020	17-05-2021 रु. 11,57,800/- (रुपये ग्यारह लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) के लिए	25-जन:
3.	(ऋण कोड संख्या 0003858), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) धरणी धर पांडे (कर्जदार का नाम) / रानी पांडे (सह-कर्जदार)	लखनक लखनक उत्तर प्रदश:- 226020 विला नंबर एफ-13, अरजी नंबर 2/1 का भाग, हुसैन नगर, उन्नाव उन्नाव उत्तर प्रदेश:- 209801	सत्तायन हजार आठ सा मात्र) के लिए 17-05-2021 रु. 14,60,511/- (रुपये चौदह लाख साट हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) के लिए	25-जन:
Э.	(ऋण कोड संख्या 00002535), (हल्द्वानी- उत्तर प्रदेश) किरण हैदर (कर्जदार का नाम) / मीनाक्षी हैदर (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 46/2 मिन का हिस्सा, मकान नंबर एच –30, कौशल्या एन्वलेव फेज 2 ग्राम बिगवाड़ा रुद्रपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्डः– 263153	12-05-2021 रु. 21,32,324/- (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ चौबीस मात्र) के लिए	25-जन:
٥.	(ऋण कोड संख्या 00002729), (इल्हानी- उत्तर प्रदेश) सचिन यादव (कर्जदार का नाम) / चंदामती यादव (सह-कर्जदार)	- खसरा संख्या 77 का भाग, ग्राम तातारपुर बरेली बरेली उत्तर प्रदेश:-	27-05-2021 रु. 8,11,783/- (रुपये आठ लाख म्यारह हजार सात सौ तिरासी मात्र) के लिए	25-जन:
1.	(ऋण कोड संख्या 00005610), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) अजय	243001 खसरा नंबर 113/1 का भाग प्लॉट, ग्राम रसूलपुर कायस्थ परगना महोना	12-05-2021 रु. 14,26,618/- (रुपये चौदह लाख छब्बीस	25-जन:
	सिंह (कर्जदार का नाम) / चंद्र कला (सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00003418), (हल्ह्यानी- उत्तर प्रदेश) बाबू	तहसील बीकेटी लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020 खसरा नंबर 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307 का हिस्सा कांजा	हजार छह सौ अठारह मात्र) के लिए 17-05-2021 रु. 16,81,387/- के लिए (रुपये सोलह लाख	25-जन:
	दीवाना हेला (कर्जदार का नाम) / सीमा दीवान (सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00000911), (इलाहाबाद- उत्तर प्रदेश)	दासपुर बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश:- 243001 अराजी नंबर 312, 313 और 314 का हिस्सा, मीजा ऐनुद्दीनपुर, परगना 8	इक्यासी हजार तीन सौ सतासी मात्र) के लिए 27-05-2021 रुपये 7,70,923/- के लिए (रुपये सात लाख	24-जन:
	जमशेद आलम (कर्जदार का नाम) / हुमा जरीन (सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00003528), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) विनोद	तहसील सदर, निकट करामत की चौकी इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेशः - 211003 प्लॉट नंबर 46 का हिस्सा अराजी नंबर 125 मिन का हिस्सा ग्राम सजरी	सत्तर हजार नौ सौ तेईस मात्र) के लिए 12-05-2021 रुपये 11,51,941/- (रुपये ग्यारह लाख	24-जन:
	कश्यप (कर्जदार का नाम) / आशा कश्यप (सह-कर्जदार)  (ऋग कोड संख्या 00004324), (हल्द्वानी- उत्तर प्रदेश) राम नंदा	कानपुर नगर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208001 खसरा नंबर 302 मिन प्राइवेट प्लॉट नंबर सी-40 का हिस्सा, विमल पार्क	इक्यावन हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) के लिए 27-05-2021 रुपये 7,58,305/- के लिए (रुपये सात लाख	
	(कर्जदार का नाम) / पुष्पा देवी (सह-कर्जदार)	ग्राम फुलसुंगी रुद्रपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्डः- 263153 प्राइवेट प्लॉट नंबर 12, अराजी नंबर 613, बगदौधी बांगर, कानपुर कानपुर	अट्ठावन हजार तीन सौ पांच मात्र) के लिए	25-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00001969), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) अभिषेक कुमार (कर्जदार का नाम) / दिव्या दुवे (सह-कर्जदार)	अर्बन उत्तर प्रदेश- 208001	19-11-2019 रु. 5,30,619/- (रुपये पांच लाख तीस हजार छह सौ उन्नीस मात्र) के लिए	25-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00003443), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) विवेक कांत रावत (कर्जदार का नाम) / सिम्मी रावत (सह-कर्जदार)	गगनदीप अपार्टमेंट, स्वरूप नगर, कैराबाद आई हॉस्पिटल लेन, कानपुर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208001	14-06-2021 रु. 25,29,118/- के लिए (रुपये पच्चीस लाख उनतीस हजार एक सौ अठारह मात्र) के लिए	25-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00006272), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) रोहित कुमार वर्मा (कर्जदार का नाम) / शालिनी वर्मा (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 08 पर निर्मित मकान, खसरा नंबर 1049 का हिस्सा, ग्राम- गोयाला, महोना तहसील– बख्शो का तालाब लखनऊ उत्तर प्रदेश:– 226020	14-06-2021 रु.22,81,889/- के लिए (रुपये बाईस लाख इक्यासी हजार आठ सौ नवासी मात्र) के लिए	24-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00003380), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) जितेंद्र सिंह (कर्जदार का नाम)/ प्रीति देवी (सह–कर्जदार)	अराजी नंबर 531 /1 मिन, ग्राम– बैरी अकबरपुर कानपुर नगर कानपुर नगर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:– 208001	14-06-2021 रुपये 18,18,886/- (रुपये अठारह लाख अठारह हजार आठ सौ छियासी मात्र) के लिए	25-जन:
).	(ऋण कोड संख्या 00005571), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) राकेश (कर्जदार का नाम) / रानी देवी वर्मा (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 7 पर मकान खसरा नंबर 358 का हिस्सा, नंदी विहार लखनक लखनक उत्तर प्रदेश:- 226020	16-06-2021 रुपये 11,37,628/- (रुपये ग्यारह लाख सैंतीस हजार छह सौ अट्टाईस मात्र) के लिए	24-जन2
ŀ	(ऋग कोड संख्या 00008618), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) रंजीत कुमार कनौजिया (कर्जदार का नाम) / रेखा (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 10-ए, खसरा नंबर 227, ग्राम-गौरभीठ, वार्ड- फैजुल्लागंज लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020	16-06-2021 रु.10,05,569/- के लिए (रुपये दस लाख पांच हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) के लिए	24-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00002898), (लखनऊ– उत्तर प्रदेश) कपिल देव कन्नौजिया (कर्जदार का नाम) / मंजू देवी (सह–कर्जदार)	खसरा क्रमांक 1122 के भाग पर प्लॉट, ग्राम अमराई गांव शहीद भगत सिंह लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020	16-06-2021 रु.9,86,618/- के लिए (रुपये नौ लाख छियासी हजार छह सौ अठारह मात्र) के लिए	24-जन:
3.	(ऋण कोड संख्या 00001702), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) वेद प्रकाश (कर्जदार का नाम) /मृणालिनी सिंह (सह-कर्जदार)	मौजा आरा कानपुर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208027	16-06-2021 रुपये 8,43,866/- के लिए (रुपये आठ लाख तैंतालीस हजार आठ सौ छियासठ मात्र) के लिए	24-जन:
1.	(ऋण कोड संख्या 00001607), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) रणधीर सिंह (कर्जदार का नाम) / सुनीता सिंह (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 2 योजना संख्या 39, जाजमक कानपुर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208001	16-06-2021 रुपये 8,13,102/- (रुपये आठ लाख तेरह हजार एक सौ दो मात्र) के लिए	24-जन:
š.	(ऋण कोड संख्या 00002901), (वाराणसी- उत्तर प्रदेश) उमेश चंद्र मिश्रा (कर्जदार का नाम) / उर्मिला देवी मिश्रा (सह-कर्जदार)	अराजी नंबर 346 मिन, मौजा धनुहा, परगना अरैल, तहसील करचना तहसील करछना इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश:-211009	16-06-2021 रु.4,73,193/- (रुपये चार लाख तिहत्तर हजार एक सौ तिरानवे मात्र) के लिए	24-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00002728), (हल्द्वानी- उत्तर प्रदेश) सचिन यादव (कर्जदार का नाम) / चंदामती यादव (सह-कर्जदार)	खसरा संख्या 77 का भाग, ग्राम तातारपुर बरेली बरेली उत्तर प्रदेश:- 243001	16-06-2021 रु. 3,67,675/- (रुपये तीन लाख सड़सठ हजार छह सौ पचहत्तर मात्र) के लिए	25-जन:
7.	(ऋण कोड संख्या 00000810), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) पारस राम (कर्जदार का नाम) / विजय लक्ष्मी (सह-कर्जदार)	सनिगवां, सनिगवां, कानपुर कानपुर कानपुर ग्रामीण उत्तर प्रदेश:- 208021	16-06-2021 रु.3,18,533/- (रुपये तीन लाख अठारह हजार पांच सौ तैंतीस मात्र) के लिए	24-जन:
3.	(ऋण कोड संख्या 00003794), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) मसरूर हबीब (कर्जदार का नाम) / फरहीन हुसैन (सह-कर्जदार)	फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल कल्पना अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 973-ए सेक्टर ए. महानगर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226001	28-06-2021 रु.28,54,851/- (रुपये अट्टाईस लाख चौवन हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) के लिए	25-जन:
).	(ऋण कोड संख्या 00006728), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) दिलीप कुमार (कर्जदार का नाम) / कंचन मौर्य (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 03, खसरा नंबर 40 और 42 का हिस्सा अली नगर सुनेहरा सरोजिनी नगर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश:- 226020	28-06-2021 रुपये 9,37,033/- के लिए (रुपये नौ लाख सैतीस हजार तैतीस मात्र) के लिए	25-जन:
	(ऋण कोड संख्या 00043693), (लखनऊ - लालबाग- उत्तर प्रदेश) नदीम एन (कर्जदार का नाम) / शीबा खानम (सह-	मकान नं – 93/1, मोहल्ला सदर बाजार परगना खैराबाद तहसील और जिला सीतापुर सीतापुर उत्तर प्रदेश:– 261001	28-06-2021 रुपये 12,98,298/- (रुपये बारह लाख अट्टानबे हजार दो सौ अट्टानबे मात्र) के लिए	24-जन2
	कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00002447), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) सचिन दीक्षित (कर्जदार का नाम) / बेबी (सह-कर्जदार)	प्लैट नंबर 102, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 5 अराजी नंबर 326 ख तथा 282	28-06-2021 रुपये 13,59,663/- (रुपये तेरह लाख	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00007409), (लखनऊ- उत्तर प्रदेश) बुद्ध	ख, वाजिदपुर, जाजमक कानपुर कानपुर ग्रामीण उत्तर प्रदेश:- 208010  प्लॉट नंबर बी-15 पर भवन, इंदिरा नगर, वार्ड-मैथिलीशरण गुप्ता फैजाबाद	उनसठ हजार छह सौ तिरेसठ मात्र) के लिए  20-07-2021 रु.10,81,57,032/- के लिए (रुपये दस करोड़	24-जन2
š.	इंडिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार का नाम) / बुद्ध रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या 00042747), (लखनक-लालबाग- उत्तर	रोड लखनक लखनक उत्तर प्रदेश:- 226001 खसरा नंबर 161 मोहस्सा तरिनपुर में लिमिट तहसील एवं जिला सीतापुर	इक्यासी लाख सत्तावन हजार बत्तीस मात्र) के लिए  20-07-2021 रु.31,30,870/- के लिए (रुपये इकतीस लाख	24 =
	प्रदेश) आकाश मिश्रा (कर्जदार का नाम)/विशाल मिश्रा (सह- कर्जदार)	सीतापुर उत्तर प्रदेशः- 261001	तीस हजार आठ सौ सत्तर मात्र) के लिए	24-जन2
4.	(ऋण कोड संख्या 00002905), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) मोहम्मद इदरीश (कर्जदार का नाम) / आमना खातून (सह-कर्जदार)	अराजी नंबर 65 मिन, मौजा मरदानपुर, कानपुर नगर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश:- 208001	20-07-2021 रुपये 17,81,554/- (रुपये सत्रह लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौवन मात्र) के लिए	24-जन2
	(ऋण कोड संख्या 00000519), (बरेली- उत्तर प्रदेश) गौतम सिंह (कर्जदार का नाम) / बीना गौतम सिंह (सह-कर्जदार)	खेत नंबर 461 का हिस्सा, बेक करमपुर चौधरी बरेली बरेली उत्तर प्रदेश:- 243001	20-07-2021 रु.14,04,291/- के लिए (रुपये चौदह लाख चार हजार दो सौ इक्यानबे मात्र) के लिए	25-जन2
16.	(ऋण कोड संख्या 00042554), (लखनऊ-लालबाग- उत्तर प्रदेश) सुनील सिंह राणा (कर्जदार का नाम)/भगवती राणा	प्लॉट नंबर 11 पर मकान, खसरा नंबर 1129 का भाग, देवपुर वारा केशरीखेड़ा लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेशः – 226017	24-09-2021 रु. 25,39,849/- के लिए (रुपये पच्चीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ उनचास मात्र) के लिए	24-जन2

पीरामल् कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

# चंदौली के मजदूरों को महाराष्ट्र में 'बेचने' के मामले का पर्दाफाश

चंदौली, 28 जनवरी (जनसत्ता)।

चंदौली जिले के गांव बिसौरी से एक जाति विशेष के पुरुष व महिला मजदूरों को महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए बेचने का पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र से तीस से अधिक मजदूर घर वापस आ गए हैं। अन्य मजदूरों को घर लाने का प्रयास जारी है।

इसकी जानकारी मिलने पर जिले के अन्य नौगढ़ के लोगों ने भी अपने क्षेत्र के मजदुरों को महाराष्ट्र में बेचे जाने की शिकायत की। इस क्रम में चंदौली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि ऐसी कोई सूचना हो तो तत्काल अपने संबंधित थाने पर दें। इससे कहीं भी फंसे लोगों की सहायता की जा सकेगी।

भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि हमारे गांव बिसौरी से 27 पुरुष और 10 महिलाओं को अच्छी मजदूरी व रहने-खाने की व्यवस्था हवाला देकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ले जाया गया था। जिले में दो अलग-अलग जगहों पर मजदूरों से काम कराया गया लेकिन तीन महीने बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं दी

वक्तर कर बिता मैंकिट्रेट/ कर बिटाविक्सी (कि एवं राज्य), तसक

<u>मोदिश</u> 1. सुश्री रीना यादव पुत्री श्री लल्लन प्रसाद यादव निवासी— ईएस—1बी / 815, सेक्टर ए, सीतापुर रोड

योजना वार्ड मास्तेन्द्र, इतिश्वन्द्र, लखनक 26020 2. नीरज वुनार यादव पुत्र श्री जल्लन यादव निवासी-

इंएस-1बी/915, सेक्टर ए, सीरापुर रोड योजना वार्ड

विजय यादव निवासी ईएस-1भी/840, सेक्टर ए.

सीतापुर रोड योजना वार्ड मारतेन्द्र हरिश्यन्द्र, लखनक

औ विवेक कुमार वर्मा पुत्र औ राजेन्द्र कुमार वर्मा

निवासी 538के 3/341/24, बीपुरम, त्रिवेधी नगर-७,

हु भी अहोक कुनार पाण्डेय पुत्र भी मुक्त नाव पाण्डेय

निवासी 643/205ए पसटन चावनी, मोहिबुरलागुर,

एलदृद्वारा आपको नीटेल दी जाती है कि केन फिन होन्स लिए (ईपान्सर-केनारा वैक), प्रथम तल, ३,

ग्रहनावफ रोड, हजस्तगज, संस्थाक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहसाखरी के न्यायालय में याधिका

प्रस्तुत करते हुए यह अवश्वा करवाया गया है कि आपके हात उक्त बैंक से लिए नये ज्ञाप का मुख्तान अभी तक अदा गुड़ी हिया गया है। अतः आप दिनाक 63.62.2022 को सन्त्य 12:60

बर्ज दिन में अयोहस्तावरी के न्यायालय में उपरिधन

होकर बारण स्पष्ट करें कि क्वों न विलीय बास्तायों

का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गतन और प्रतिभूतिकरण हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की बारा—14 के अन्तर्गत

कार्यवाही करते हुए बैंक झाल प्रस्तुत अभिलेख । कथित सम्पत्ति की कब्बे में लेकर बैंक को ऋग

अवायमी बसूली के सम्बन्ध में दे वी जाये। वदि आप

छका निर्मारित दिनांक व समय पर अजेहरतासरी के

न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जायेग

कि आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसा निबनानुसार आवैक पारित कर दिए जाएने।

(विधिन कुमार मिश्र) अपर विका पैविरट्रेट/अपर विकासिकारी (निष्पृशंराकः),

निविदा संख्या 08/ई0एस0डी0

के0वी0 उपकेन्द्र, उन्नाव पर मल्सीफायर

सिस्टम, फायर हाइड्रैन्ट सिस्टम एवं डीजल

जनरेटर सेट के वार्षिक अनुरक्षण के कार्य हेत्

ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे

www.etender.up.nic.in पर दिनांक

28.01. 2022 को प्रकाशित किया गया है।

कार्य की अनुमानित लागत लगभग रु०

1,27,200.00, कार्य की अवधि एक वर्ष,

धरोहर धनराशि रु० 2,000.00 एवं ई-निविदा

प्रपत्र मूल्य रु० ५९०.०० (१८ प्रतिशत

जी0एस0टी0 सहित) ऑन लाइन निविदा भरने

की अंतिम तिथि दिनांक 26.02.2022 (14.00

बजे तक) है। निविदा विशिष्टीकरण व अन्य

नियम एवं शर्ते ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध

हैं। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये

निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा

निर्धारित तिथि को विस्तार तथा शुद्धि पत्र से

सम्बन्धित सूचना यदि कोई होगी केवल

वेबसाइट पर डाली जायेगी। अतः स्वयं को

अपडेट रखने के लिये उपरोक्त वेबसाइट को

नियमित देखें। हस्ता/- अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत ४०० के०वी० उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव।

'राष्ट्र हित में ऊर्जा बचाएं''। पत्रांक

ई-निविदा आमंत्रण सूचना ई-

यू0/ 2021-22, विद्युत 400

तंख्या-23/पेशकार/2022

पारतेन्द्र हरिस्चन्द्र, लखनक 26020

निराला नगर, लंबनक-226020

सीतापुर रोड, अलीगज, लखनक।

भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिमन्य सिंह ने बताया कि हमारे गांव बिसौरी के 27 पुरुष और 10 महिलाओं को अच्छी मजदूरी व रहने-खाने की व्यवस्था हवाला देकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ले जाया गया था। जिले में दो अलग-अलग जगहों पर मजदुरों से काम कराया गया लेकिन तीन महीने बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं दी गई।

गई। इन मजदूरों ने मजदूरी मांगी तो उन्हें बताया गया कि ठेकेदार को सभी की मजदूरी दे दी गई है। यह सुनकर मजदूर परेशान हो गए और वहां से भाग निकले।

इतने लोगों को एक साथ देखकर महाराष्ट्र पलिस को संदेह हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। पछताछ में मजदरों ने सारी घटना पुलिस को बताई। फिर महाराष्ट्र पुलिस ने उनके घर फोन पर पृष्टि की। उधर परिजनों ने अपने गांव बिसौरी के निवासी भाजपा जिलाध्यक्ष अभिमन्यू सिंह से मदद मांगी। जिलाध्यक्ष ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर वहां फंसे मजदूरों को सुरक्षित वापस भेजने का आग्रह किया। अहमदनगर ने संबंधित थाना क्षेत्र जामखेड़ के प्रभारी निरीक्षक को जांच में लगाया। जामखेड़ के प्रभारी निरीक्षक संभाजी

गायकवाड़ ने फोन पर बताया कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। सभी को महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रेन से वापस घर भेज दिया। जिलाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को भी अवगत कराया था। इसको सज्ञान में लेते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने वापस आए मजदूरों का बयान दर्ज करते हुए तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर के सामने आते ही नौगढ़ के कुछ लोग भाजपा जिलाध्यक्ष के पास 26 जनवरी को आए। इन लोगों ने बताया कि नौगढ़ के भी 24 मजदूरों को यही गिरोह महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के पीपरी गांव में बेच चुका है। इस मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

# तीन अवैध हथियार फैक्टरियां पकड़ी गईं

सहारनपुर, 28 जनवरी (जनसत्ता)।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में जनपद में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक व निजी स्थानों से अब तक कुल 6696 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गई हैं। इनमें से 583 वाल राइटिंग, 2951 पोस्टर, 2184 बैनर व 978 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई। अखिलेश सिंह ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी व कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए जनपद में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स व अन्य विभागों के जरिए कार्रवाई की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 762850 रुपए से अधिक मूल्य की 3462 लीटर मदिरा व 6528040 रुपए से अधिक मूल्य का 7.012 किग्रा मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके अंतर्गत विगत 24 घंटे में थाना गागलहेडी क्षेत्रांतर्गत पांच पेटी में रखे 240 पव्वे क्रेजी रोमियो फोर सेल इन अरूणाचल प्रदेश, 12 संतरा रसीला बोतल फोर सेल इन हरियाणा, 38 पव्चे अपमिश्रित तोहफा मार्का, 50 लीटर अपमिश्रित शराब, 19 खाली पव्वे बरामद किए गए। जनपद में कुल 77200 रुपए से अधिक मूल्य की कुल 299 लीटर अवैध शराब व 78000 रुपए से अधिक से अधिक मूल्य का 107 ग्राम मादक पदार्थ पकड़ा गया। अब तक कुल 1155900 रुपए कैश बरामद किया गया। अब तक कुल 12472 लाईसेंसी शस्त्र जमा

🏵 केन्द्रीय भण्डारण निगम 🔤 🕦

पत्रांक : सीडब्ल्यूसी/आरओ—लख/सीडी/एचएण्डटी/2021–22/ हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा सूचना

इच्छुक निविदादाताओं से सेन्ट्रल वेयरहाउस, बिजनौर (उ०प्र०) एवं जसपुर (उ०ख०) पर नियमित हथालन एवं परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति हेतु आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विवरण केन्द्रीय मण्डारण निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in एवं cppp वेबसाइट www.cppp.gov.in पर देखे व डाउनलोड किए जा सकते हैं एवं आनलाइन निविदा वेबसाइट www.cwceprocure.com पर दी जा सकती है। निविदा डाउनलोड करने निविदा वेबसाइट www.cwceprocure.com पर पा आजाजा हा ..... की अन्तिम तिथि 26.02.2022 एवं जमा करने की अन्तिम तिथि 27.02.2022 है। क्षेत्रीय प्रबन्धक

👸 बड़ौदा यू.पी. बैंक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 05.03.2022

क्षेत्रीय कूर्यालय, बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगज, फैजाबाद— 224001 ₩ Baroda U.P. Bank फोन: 05278- 244032, फैक्स: 05278241706

<u>नीलामी सूचना का शुद्धिपत्र</u> यह सभी संबंधितों की अधिसूचना के लिए है कि नीलामी सूचना दिनांक 12.01.2022 को जनसत्ता लखनऊ संस्करण में प्रकाशित हुई थी। यह सूचित कियाँ जाता है कि दिनांक 11.01.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाइबार के आदेश के कारण जनहित याचिका संख्या 564/2020 टाईटल सूओ मोटो बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश , नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और नीलामी तिथि को संशोधित किया गया है :

निविदा खोलने की तिथि : 07.03.2022 दोपहर 1.00 बजे स्थान : बड़ौदा यूपी बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय , बलदेव निवास कंपाउंड , रीडगंज , फैजाबाद , जिला : उपरोक्त नीलामी सचना में उल्लिखित और प्रकाशित अन्य सभी नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

दिनांकः 28.01.2022, स्थानः फैजाबाद/अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001 सीआइएनः L65993UP1986PLC007727, टेलिफोनः 0512-2372665 ई-मेलः vikalpsecuritieslimited@gmail.com वेबसाइटः www.vikalpsecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (a), विनियमन 33 तथा विनियमन 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक सोमवार, 07 फरवरी, 2022 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001 में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाईट <u>www.vikalpsecurities.com</u> तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड के लिए

स्थानः कानपुर दिनांक: 28 जनवरी, 2022

हस्ता./· अरुण केजरीवाल प्रबंध निर्देशक DIN (डिन): 00687890

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक कुल 14 लोगों के विरूद्ध एफआइआर दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त अब तक 219 अस्त्र-शस्त्र, कारतूस बरामद किए गए आर तान अवध शस्त्र फैक्टरियां पकड़ी गई है। 24 घंटे में धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10 चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिनमें कुल 133 व्यक्ति चालानित किए गए। इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ०१ अवैध शस्त्र फैक्टपी पकडी गई, जिसमें 01 बंदूक 12 बोर, 06 तमंचे 315 बोर, 12 अधबने तमंचे, अन्य तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। जनपद में कुल 31 अवैध अस्त्र-शस्त्र व 33 कारतूस बरामद किए गए।

गए।

107/116 दंड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत कुल

46368 व्यक्तियों के

विरूद्ध चालानी रिपोर्ट

प्रेषित की गई, जिनमें से

दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 116(3) के अंतर्गत

कुल 36046 व्यक्तियों

को पाबंद कराया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 117 के अंतर्गत

कुल 14011 व्यक्तियों

को पाबंद कराया गया।

#### **apnb** Housing Finance Limited

४५/वि.उ.ख.(उ.)/विज्ञापन

28.01.2022

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली−110001, फोन : 011−23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

लखनक शाखा कार्यालयः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, वाणिज्यिक परिसर, शाहनजफ रोड, पंडित हाउर लखनऊ—226001 **कानपुर शाखा कार्यालयः** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तृतीय तल, 16/104 ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, कानपुर – 208001 (यूपी)

सिविल लाइन्स, कानपुर — 208001 (यूपी)

प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित दित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनरिमाण एवं
प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनरिमाण एवं प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "आधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की घारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। जन्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारं/ गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तो/ ब्याज का शुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्त बँक / राष्ट्रीय आवास बँक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयत्वस्तु आपके हारा मृत्वन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नोचे दो गई है।
आतों, हमें कारणों के आघार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसािक उन्त अधिनियम की घारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उन्त राशि, अद्यतन व्याज तथ्या अन्य राशियों सिहत, जो मुगतान की तिथि तक देव हो सकतीं हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अविध के मीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल जो अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल जो अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की पारंटरों की प्रत्यामूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाता है। आप के अप-धार (6) के प्रवास्त आस्त्रों का कब्जा प्राप्त किया जाता है। आप के अप-धार किया जो किया का प्रतिप्त किया जाता है, जिसमें का प्रतार तथा मांग स्वार का प्रतार तथा। की अप-धार (6) के प्रवास्त आसित्य जाता है, जो मुगतान सार्वजिक मीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण हारा अथ्या गुप्त समझौत हारा प्रत्यामूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया प्रता समझौत हारा प्रतामूत किया का तिथि तक निया का करन सहित हो हारा प्रवास्त की बिक्री की सूचन के

आगे, आप के कपर, उक्त अधिनियम की घारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्यामूल आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.		स्वः श्री राम नाध्य वर्मा के समी कानूनी वारिसों के लिए, सुश्री पारुन, पता—203, मिश्री लाल चौराहा लखनपुर, अवधपुरी रोड उद्योग नगर, कानपुर, यूपी — 208022 इंडिया		संपत्ति का सभी अंश और खंड निजी प्लॉट नं 12, अराज़ी नंबर 58 का जुज भाग, गंगापुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश—208001 माप 108.69 वर्ग मीटर जो ग्राम गंगापुर परगना और जिला कानपुर, में स्थित सीमाबद्ध:— पूर्व— फ्लैट, परिचम— प्लॉट नं.13, उत्तर— 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण— 20 फीट चौड़ी सड़क		01.12.2021 तक रु. 10.07.154.62 (रुपये दस लाख सात हजार एक सौ चौवन एवं पैसे बासठ)
2.	49113 & HOU/KN	मनीष चंद्र, मालती देवी जायसवाल, पता — 84/141 बी, करवालो नगर, अनवरगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश — 208003, इंडिया		अराज़ी नं 204/1, प्लॉट 11, मिर्जापुर, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत—208017. माप 83.61 वर्ग मीटर, जो कानपुर नगर में स्थित, सीमाबद्ध: — पूर्व: अराज़ी का हिस्सा, पश्चिम: 7.62 मीटर रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 10, दक्षिण: प्लॉट नंबर 12		27.11.2021 तक रु 15,77,187.28 (रुपये पंद्रह लाख सतत्तर हजार एक सौ सतासी एवं पैसे अट्टाईस मात्र)
3.	96783 & NHL/LU	प्रीति गुप्ता, कृष्णा ट्रेडर्स, नीरज कुमार गुप्ता पता — 4/287, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश — 226010		पलैट 607, छठी मंजिल, रोहित रेजीडेंसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत— 226010	25-01-2022	22.01.2022 रु. 4617029.30 (रुपये छियालीस लाख सत्रह हजार उनतीस एवं पैसे तीस मात्र)
4.	31536	आत्म प्रकाश पाण्डेय, शिवकांत पाण्डेय, पता –ए 108, भेल टौंशिप कथौरा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश 227809	<b>शर्मा</b> निवासी 54/24	संपत्ति का सभी अंश और खंड प्लॉट नं 569 सीएच/534, खसरा नं 60 सा, माप 125.464 वर्ग मीटर, जो प्रेम नगर मजार गांव बरगवां, वार्ड- गुरुनांक नगर, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, में स्थित सीमाबद्ध : — पूर्व— 15 फीट चैड़ा रोड, पश्चिम— ए के घोष का घर, उत्तर—अमित कुमार वर्मा का घर, दक्षिण— गिरीश चंद्र गुप्ता का घर		17.11.2021 तक 17,27,396.36 (रुपये सत्रह लाख सत्ताईस हजार तीन सौ छियानबे एवं पैसे छत्तीस मात्र)

स्थान : कानपुर / लखनऊ, दिनांकित : 28-01-2022

हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड